

CBI करेगी अब जांच

By : Editor Published On : 3 Oct, 2020 08:12 PM IST



लखनऊ । उत्तरप्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में योगी सरकार ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। विपक्षी दलों की ओर से भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी।

शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान पीड़िता के परिजन ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। इसके कुछ ही देर बाद सीएम ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच पर संतोष जाहिर किया है।

पीड़िता के भाई ने कहा कि हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में मामले की जांच की जाए लेकिन सीबीआई जांच भी ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्हें उनके सवाल का जवाब दिया जाए। उन्होंने सवाल दोहराते हुए कहा कि वह जानना चाहते हैं कि जिसकी बाँड़ी जलाई गई थी वह किसकी थी? अगर वह उनकी बहन का शव था तो उसे इस तरीके से क्यों जलाया गया? डीएम ने उनके साथ बदसलूकी क्यों की?

पीड़िता के भाई ने कहा कि वह चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की जांच की जाए। उन्होंने डीएम हाथरस को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राहुल से भी मांग की थी कि उन्हें जल्द से जल्द हटवाया जाए। पीड़िता के भाई ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ खड़े हैं और वह अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने पीड़िता के परिवार को सहायता राशि का चेक भी सौंपा है। पीएलसी[PLC].

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/cbi-करेगी-अब-जांच/>